



## DentaDrive X.0

न्युमेटिक प्रत्यक्ष उपकरण परिवर्तन

आइटम नंबर 16302004

उच्च गति की मिलिंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, एनग्रेविंग के लिए HF-स्पिंडल

### स्टॉक

हाइब्रिड बॉल बियरिंग (नग)	3
जीवनकाल लुब्रीकेशन (स्निग्धीकरण)	अनुरक्षण से मुक्त

### मोटर

मोटर प्रौद्योगिकी	3-चरणीय अतुल्यकालिक ड्राइव (ब्रशरहित और सेंसररहित)
आवृत्ति	1.667 HZ
मोटर धुवों (जोड़ों) की संख्या	1
मूल्यांकित गति	100.000 rpm
त्वरण / मंदा प्रति सेकंड	10 000 rpm (परामर्श के पश्चात् अन्य मान)

### विद्युत शक्तिमान

स्पिंडल सपोर्ट कूलिंग

	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
मूल्यांकित पावर	0,75	0,65	0,51	[kW]
टॉर्क	0,12	0,103	0,09	[Nm]
वोल्टेज	71	71	63	[V]
धारा	13,6	11,8	10,7	[A]


### विद्युत शक्तिमान

एयर ब्लास्ट


	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
मूल्यांकित पावर	0,4	0,32	0,23	[kW]
टॉर्क	0,121	0,077	0,066	[Nm]
वोल्टेज	36	36	36	[V]
धारा	13,6	10	9	[A]

## DentaDrive X.0

न्युमेटिक प्रत्यक्ष उपकरण परिवर्तन  
आइटम नंबर 16302004




माप



### पाँवर चित्र

स्पिंडल सपोर्ट क्लिंग

कार्य-निष्पादन मापन आंतरिक इंजन टेस्ट बेड पर होता है



### पाँवर चित्र

एयर ब्लास्ट

कार्य-निष्पादन मापन आंतरिक इंजन टेस्ट बेड पर होता है

## सुविधाएं

हाउज़िंग	स्टेनलेसस्टील / ऐल्युमिनियम
हाउज़िंग व्यास:	33 मिमी
क्लिंग	एयर ब्लास्ट
हीट अपव्यय	हाउज़िंग के माध्यम से
हाउज़िंग का तापमान	< + 60° C
ऑपरेंटिंग परिवेश के तापमान	+ 10° C ... + 45° C
सीलिंग हवा	
सुरक्षा (सीलिंग एयर चालू की गई)	IP54
औजार विनियम के दौरान चक के माध्यम से जोरदार हवा फेंकें	
स्पर्श	
औजार विनियम	न्युमेटिक प्रत्यक्ष उपकरण परिवर्तन
चक प्रकार	5,1P-5°
तक चकिंग क्षमता	4 मिमी
दक्षिणावर्त	
संयोजन	केबल की लंबाई 1,7 मी
भार	~ 0,8 किग्रा
रेडियल रनआउट आंतरिक शंकु	< 1 μ